

उत्तराखण्ड में चीनी बगुला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान और भूटान में पाया जाने वाले पक्षी **चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन** को पहली बार उत्तराखण्ड में देखा गया है।

मुख्य बढि:

- वशिषज्जों के मुताबकि, उत्तराखण्ड में चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
 - पहली बार इस पक्षी ने प्रजनन के लिये **लैसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार क्षेत्र** को चुना है।
- गर्मियों के दौरान कोटद्वार और लैसडाउन वन प्रभाग के सनेह क्षेत्र के घने वनों में कई प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं।
 - पूर्वोत्तर राज्यों से पक्षियों का यहाँ आगमन/प्रवासन इस बात का संकेत है कियहाँ का परविश उनके लिये अनुकूल है।

चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन (Chinese Pond Heron)



- चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन (*Ardeola bacchus*) बगुला कुल का एक **पूर्वी एशियाई अलवण जलीय पक्षी** है।
 - यह पक्षियों की छह प्रजातियों में से एक है जिन्हें "पॉन्ड हेरॉन अर्थात् तालाब के बगुलों" (*genus Ardeola*) के नाम से जाना जाता है।
- यह आमतौर पर **47 cm** (19 इंच) लंबा होता है, इसके **सफेद पंख, पीले रंग की चोंच व काले सरि, पीली आँखें और पैर** होते हैं।
 - प्रजनन काल के दौरान इसका समग्र रंग **लाल, नीला और सफेद** होता है तथा अन्य समय में भूरा-भूरा एवं सफेद रंग का होता है।
- यह **उथले अलवण जल और खारे जल वाले आर्द्रभूमि तालाबों** में पाया जाता है।
- यह काफी सामान्य है और **IUCN रेड लिस्ट** द्वारा इसे **कम चिन्नीय (LC)** प्रजातिमाना जाता है।

